

## रोचक स्थल

यद्यपि आसनसोल मूलतः कोयला खनन और इस्पात उत्पादन हेतु एक औद्योगिक क्षेत्र है, तथापि यह मंडल पर्यटन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है और आगंतुकों के लिए काफी पर्यटन संबंधी आकर्षण उपलब्ध कराता है।

1. आसनसोल से करीब 8 कि.मी. की दूरी पर दामोदर नदी के किनारे नेहरू पार्क स्थित है। इस पार्क में एक संगीतमय फौवारा है, नौकायन सुविधा है और दामोदर के किनारे पर रेस्तराँ है।



2. मैथन बाँध आसनसोल से लगभग 22 किमी की दूरी पर एक खूबसूरत पर्यटन/पिकनिक स्थल है। झारखण्ड राज्य में मैथन डैम स्थित डीवीसी हाइडल परियोजना अपने आप में एक अनुठा भूमिगत विद्युत स्टेशन है। प्रख्यात कल्याणेश्वरी मंदिर इस डैम के काफी नजदीक अवस्थित है।



3. दुर्गापुर बैराज एक मनोरम व लोकप्रिय पिकनिक स्थल है। दुर्गापुर स्थित ट्रोइका पार्क और कुमार मंगलम पार्क के अलावा जंक्शन मॉल भी खरीदारी हेतु एक आकर्षण है।

4. सिउड़ी से लगभग 30 किमी की दूरी पर स्थित बक्रेश्वर में एक प्राकृतिक गर्म जल का सोता है, माना जाता है कि इस जल में औषधीय गुण हैं। साथ ही बक्रेश्वर रिट्रीट के लिए एक उपयुक्त स्थान है।



5. बोलपुर (शांतिनिकेतन) कविगुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय के लिए विख्यात है।



6. आसनसोल से लगभग 17 किमी दूर अवस्थित चुरुलिया महान कवि काजी नज़रुल इस्लाम (बंगलादेश के राष्ट्रकवि भी) का जन्म-स्थल है। यहाँ नज़रुल अकादमी में कवि की पांडुलिपियाँ, पदक और अन्यान्य निजी वस्तुएं संग्रहित हैं।



7. बर्नपुर, चित्तरंजन, रानीगंज एवं दुर्गापुर महत्त्वपूर्ण औद्योगिक एवं वाणिज्यिक शहर हैं।
8. आसनसोल मंडल के अंतर्गत गिरिडीह, मधुपुर, जसीडीह और सिमुलतला स्वास्थ्यलाभ-स्थल और आरोग्यनिवास के रूप में प्रसिद्ध है।
9. देवघर (बैद्यनाथधाम, सामान्यतः बाबाधाम के रूप में लोकप्रिय) 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। सावन माह में श्रावणी मेला के दौरान देश के विभिन्न भागों से तीर्थयात्रीगण देवघर आते हैं।

